



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 463 राँची, बुधवार

10 आषाढ, 1937 (श०)

1 जुलाई, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

25 जून, 2015

संख्या-4/न.वि./गठन/109/2015-2202(अनु) -- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (1), (2) (ब), धारा-4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, बोकारो जिलान्तर्गत तांतरी, ठाकुर टॉड, खुटंरी, केन्दुआडीह, जैना, बाधडीह, टॉडमोहनपुर एवं टॉडबालीडीह, राजस्व ग्रामो को मिलाकर कुल जनसंख्या-52564 होने के फलस्वरूप लघुतर शहरी क्षेत्र (नगर परिषद्-वर्ग 'ख') के रूप में घोषित करने संबंधी "प्रारूप आदेश" निर्गत करना चाहते हैं।

इससे प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के "झारखण्ड गजट" में प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अंदर जैना नगर परिषद् वर्ग 'ख' के गठन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव, उपायुक्त, बोकारों के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, बोकारो के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-5 की उपधारा-(2) के अधीन उपायुक्त, बोकारो द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (1), (2) (ब), धारा-4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बोकारो जिलान्तर्गत 8 राजस्व ग्रामों यथा- तांतरी, ठाकुर टाँड, खुटरी, केन्दुआडीह, जैना, बाधडीह, टाँडमोहनपुर एवं टाँडबालीडीह (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित अनुलग्न-1 के रूप में संलग्न) को मिलाकर लघुतर शहरी क्षेत्र (जैना नगर परिषद् वर्ग-'ख' ) के रूप में घोषित करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से  
अजय कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव ।

अनुलग्नक-1

नगर विकास विभाग

जैना नगर परिषद् का गठन

उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-731/प. दिनांक 30 मई, 2015 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बोकारो जिलान्तर्गत प्रस्तावित जैना नगर परिषद् में सम्मिलित होने वाले 08 राजस्व ग्रामों की सूची:-

क्र.	ग्राम का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या घनत्व
1	तांतरी	06	11117	7.88	1410
2	ठाकुर टाँड	07	1760	2.30	765
3	खुटरी	08	4761	9.12	522
4	केन्दुआडीह	09	1055	4.13	244
5	जैना	10	8143	2.68	3038
6	बाधडीह	11	13192	14.20	929
7	टाँडमोहनपुर	12	4554	2.71	1680
8	टाँडबालीडीह	13	7982	4.74	1684
	कुल-	47.76	52564	47.97	10272
			औसत जनसंख्या घनत्व-		1095

-----